

## Sitamadhi News : नकली नोट प्रिंट लगाते थे चूना, मशीन और केमिकल के साथ दो गिरफ्तार... जानिए कैसे लोगों को बनाते थे निशाना



**सीतामढ़ी :** जिला पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। जाली नोट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड हुआ है। इस गिरोह के सदस्य नकली नोट बनाते थे और असली नोट के बीच इन नकली नोटों को लगाकर लोगों को चूना लगाने का क पुलिस ने सादे कागज के गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगा कर उसे नकली नोट की गड्डी बता भोले - भाले बैंक ग्राहकों से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गिरोह के दो सदस्यों को भी पकड़ने में भी सफलता हाथ लगी है। इसकी पुष्टि एसपी हर किशोर राय ने की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों ठग व्यक्तियों के ठिकाने से नेपाली नोट, नोट प्रिंट करने वाली मशीन और दो- तीन तरह का केमिकल भी बरामद किया गया है। जो नोट प्रिंट करने के काम में प्रयोग किया जाता है।

### ठगों की पुलिस को लगी थी भनक

बताया जा रहा है कि जिले के कन्हौली थाना पुलिस को भनक लगी थी कि एक गिरोह है, जो सादा कागज के बंडल के ऊपर व नीचे कुछ असली नोट लगाकर ठगी का काम करता है। गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस गुप्त रूप से जाल बिछा चुकी थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। दोनों को मेजरगंज थाना में रखा गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

### इनकी हुई है गिरफ्तारी

एसपी श्री राय ने बताया कि पकड़ा गया एक व्यक्ति सुशील तिवारी मेजरगंज थाना क्षेत्र के खैरवा गांव निवासी महेंद्र तिवारी का पुत्र सुशील तिवारी एवं दूसरा व्यक्ति मेजरगंज गांव निवासी मो. निजाम का पुत्र आफताब आलम है। पुलिस ने 52 नेपाली नोट का गड्डी भी जब्त किया है। गड्डी के अंदर सादा नोट था। इसके अलावा नोट प्रिंट करने की मशीन और तीन तरह का केमिकल भी बरामद किया है। एसपी श्री राय ने बताया कि चार बाईक भी जब्त किया गया है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/sitamadhi-news-two-arrested-with-lime-machine-and-chemical-used-to-print-fake-notes-know-how-people-used-to-target-people/articleshow/92643330.cms>